

## गुणा करना (गुणन)

शिक्षकदिवस के अवसर पर शिक्षिका को देने के लिए बच्चों ने एक पुष्पगुच्छ तैयार किया । उसके लिए टोनी, सोनी, सलमा, जॉन तथा नंदू प्रत्येक ने २-२ फूल लाए । सोनी ने उन फूलों का एक सुंदर पुष्पगुच्छ तैयार किया ।



शिक्षिका : अति सुंदर ! कितना आकर्षक और बड़ा पुष्पगुच्छ बन गया है ।

यह पुष्पगुच्छ कुल कितने फूलों से बना है ?

टोनी : प्रत्येक द्वारा लाए गए दो फूल, इस प्रकार पाँच लोगों के मिलाकर दस फूल हो गए ।


जॉन : प्रत्येक के २ फूल, ऐसे कुल पाँच लोगों के फूल का अर्थ है, २ को ५ बार लेकर किया गया जोड़ ।  $2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$  ।

शिक्षिका :  $2 + 2 + 2 + 2 + 2$ , इसे  $2 \times 5$  ऐसा लिखते हैं ।


१०, २ और ५ का गुणनफल है ।

यहाँ नीचे चित्रसमूह दिए गए हैं । आओ गिनें, कि उनमें कितने फल हैं ।


सोनी : एक कतार में ४ नीबू, ऐसी दो कतारें ।  
४ का दुगुना अर्थात् ८ नीबू ।  
संख्या ४ को दो बार लेकर किए गए जोड़ का अर्थ है ४ का दुगुना ।




टोनी : एक कतार में ४ खीरे, ऐसी चार कतारें ।  
४ का ४ गुना, अर्थात् १६ खीरे ।




सलमा : एक कतार में चार अमरूद,  
ऐसी तीन कतारें, अर्थात् ४ का तिगुना १२ ।




जॉन : एक कतार में चार आम, ऐसी १० कतारें ।  
४ का दस गुना अर्थात् ४० आम ।




## गुणा करना (गुणन)




टोनी



सोनी



नंदू



सलमा




प्रत्येक के पास ३ गेंद, अतः कुल कितने गेंद ?

$$3 + 3 + 3 + 3 = 12$$

३ को चार बार लेकर किया गया जोड़ अर्थात् ३ का चार गुना ।

$$\text{अर्थात् } 3 \times 4 = 12 \text{ (३ चौक १२)}$$

❖ इसी प्रकार नीचे दिए गए प्रश्नों के चौखटों को पूर्ण करो ।



प्रत्येक टोकरी में छह आम, तो ऐसी तीन टोकरियों में कितने आम ?

$$6 + 6 + 6 = \text{छह का } \boxed{\phantom{0}} \text{ गुना अर्थात् } 6 \times \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}} \text{ (६ तियाँ } \boxed{\phantom{0}}\text{)}$$

❖ ३ बच्चों का एक समूह, इस प्रकार ७ समूह बनाकर बच्चे खड़े थे, तो कुल कितने बच्चे ?

$$3 \text{ का } \boxed{\phantom{0}} \text{ गुना , } \text{ तीन सत्ते } \boxed{\phantom{0}} , \quad 3 \times \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$

❖ चित्र देखो और ऊपर की भाँति प्रश्न तैयार करके हल करो ।



❖ एक कापी का मूल्य ५ रु., ऐसी ९ कापियों का मूल्य कितना ?

संख्या ५ को ९ बार लेकर किया गया जोड़ अर्थात्  $5 \times 9$  ।







$$5 \times 9 = 45 \text{ ।}$$

अतः ९ कापियों का मूल्य ४५ रुपये ।

**शिक्षिका :** पहाड़े वास्तव में क्रम से किए गए गुणनफल ही हैं । उनका उपयोग करके हम आगे बढ़ी संख्याओं का गुणा (गुणन) करनेवाले हैं ।










हम २, ३, ४, ५ और १० के पहाड़े बोलेंगे ।

## गुणा करना (गुणन)

वस्तु रूप में	जोड़ के रूप में	कितनी बार	कितने गुना	गुणन का रूप	कुल वस्तुएँ
	$2 + 2 + 2 + 2 + 2$	दो पाँच बार	2 का पाँच गुना	$2 \times 5$	10
	$5 + 5$	..., दो बार	5 का ... गुना	$\dots \times \dots$	
	$\dots + \dots + \dots + \dots + \dots$	..., पाँच बार	... का ... गुना	$\dots \times \dots$	
	.....	दस, तीन बार	10 का ... गुना	$\dots \times \dots$	.....
	.....	चार, छह बार	.....	$\dots \times \dots$	.....
	.....	.....	.....	$\dots \times \dots$	.....



## ६ का पहाड़ा

	६, एक बार	$6 \times 1 = 6$ छह एकम छह
	६, दो बार	$6 \times 2 = 12$ छह दुनी बारह
	६, तीन बार	$6 \times 3 = 18$ छह तियाँ अठाह
	६, चार बार	$6 \times 4 = 24$ छह चौक चौबीस
	६, पाँच बार	$6 \times 5 = 30$ छह पचे तीस
	६, छह बार	$6 \times 6 = 36$ छह छक छत्तीस
	६, सत्ते बार	$6 \times 7 = 42$ छह सत्ते बयालीस
	६, आठ बार	$6 \times 8 = 48$ छह अट्ठे अड़तालीस
	६, नौ बार	$6 \times 9 = 54$ छह नवाँ चौवन
	६, दस बार	$6 \times 10 = 60$ छह दहाँ साठ

### ७, ८ तथा ९ के पहाड़े

आओ, हम ६ के पहाड़े की तरह ७, ८ तथा ९ के पहाड़े तैयार करें।

$7 \times 1 =$	७
$7 \times 2 =$	१४
$7 \times 3 =$	२१
$7 \times 4 =$	२८
$7 \times 5 =$	३५
$7 \times 6 =$	४२
$7 \times 7 =$	४९
$7 \times 8 =$	५६
$7 \times 9 =$	६३
$7 \times 10 =$	७०

$8 \times 1 =$	८
$8 \times 2 =$	१६
$8 \times 3 =$	२४
$8 \times 4 =$	३२
$8 \times 5 =$	४०
$8 \times 6 =$	४८
$8 \times 7 =$	५६
$8 \times 8 =$	६४
$8 \times 9 =$	७२
$8 \times 10 =$	८०

$9 \times 1 =$	९
$9 \times 2 =$	१८
$9 \times 3 =$	२७
$9 \times 4 =$	३६
$9 \times 5 =$	४५
$9 \times 6 =$	५४
$9 \times 7 =$	६३
$9 \times 8 =$	७२
$9 \times 9 =$	८१
$9 \times 10 =$	९०

### जोड़ की सहायता से पहाड़े :

शिक्षिका : ६ का पहाड़ा तैयार करने के लिए ६ के दो भाग करें। जैसे-

$6 = 4 + 2$ । अब ४ तथा २ के पहाड़े लेकर उनको जोड़ें और ६ का पहाड़ा तैयार करें।

टोनी : जिस प्रकार ४ तथा २ के पहाड़े से ६ का पहाड़ा तैयार किया जाता है, उसी प्रकार उसे ५ तथा १ के पहाड़े की सहायता से भी क्या तैयार कर सकेंगे?

शिक्षिका : किन्हीं दो ज्ञात पहाड़ों के जोड़ की सहायता से नवीन पहाड़ा तैयार किया जा सकता है।

टोनी : अतः ४ तथा ३ के पहाड़े द्वारा ७ का पहाड़ा तैयार किया जा सकता है।

४ का पहाड़ा	२ का पहाड़ा	जोड़	६ का पहाड़ा
४	२	$4 + 2 = 6$	$6 \times 1 = 6$
८	४	$8 + 4 = 12$	$6 \times 2 = 12$
१२	६	$12 + 6 = 18$	$6 \times 3 = 18$
१६	८	$16 + 8 = 24$	$6 \times 4 = 24$
२०	१०	$20 + 10 = 30$	$6 \times 5 = 30$
२४	१२	$24 + 12 = 36$	$6 \times 6 = 36$
२८	१४	$28 + 14 = 42$	$6 \times 7 = 42$
३२	१६	$32 + 16 = 48$	$6 \times 8 = 48$
३६	१८	$36 + 18 = 54$	$6 \times 9 = 54$
४०	२०	$40 + 20 = 60$	$6 \times 10 = 60$

शिक्षकों के लिए : दो अलग-अलग पहाड़ों के जोड़ की सहायता से ८ तथा ९ के पहाड़े तैयार करवाएँ। यह भी ध्यान में लाएँ कि दो पहाड़ों के घटाव की सहायता से भी पहाड़े तैयार कर सकते हैं।



### ९ का मनोरंजक पहाड़ा ९ के पहाड़े का कौतुक (विशेषता)

शिक्षिका : मैं तुम लोगों को ९ के पहाड़े का एक कौतुक बताती हूँ।

इकाई के स्थान पर १, ८, ७, .... को ० तक उलटे क्रम में संख्याएँ लिखो। उनके पहले दहाई के स्थान पर संख्याएँ ०, १, २ .... ९ को क्रम से लिखो। हो गया ९ का पहाड़ा तैयार! यह एक कौतुक है कि नहीं!

सोनी : अरे वाह! मेरे ध्यान में तो एक अन्य कौतुक भी आया है। पहाड़े में आनेवाली प्रत्येक संख्या की दहाई तथा इकाई के स्थानवाले अंकों का जोड़ नौ ही है।

०९
१८
२७
३६
४५
५४
६३
७२
८१
९०

◆ नीचे दी गई सारणी में  $5 \times 3 = 15$  दिखाया गया है। खाली चौकों में सही संख्याएँ भरो।

x	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२	२	४	६	८	१०					
३	३	६	९							
४	४	८	१२							
५	५	१०	१५	२०	२५					
६						३६				
७							४९			
८								६४		
९									८१	
१०	१०									१००

ए) शिक्षकों के लिए : प्रत्येक विद्यार्थी को १ से १०० की सारणी तैयार करने के लिए कहें। प्रत्येक विद्यार्थी को कोई एक पहाड़ा देकर, उसमें आनेवाली संख्याओं को रँगने के लिए कहें। इस प्रकार तैयार होनेवाले प्रतिस्तृप्त (आकृतिबंध) का निरीक्षण करने के लिए कहें।


◆ नीचे दिए गए गुणन (गुणा) पूर्ण करो ।

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 6 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ \times 4 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$


---


◆ नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर, गुणन (गुणा) के प्रश्न तैयार करो तथा हल करो ।

✳ नीचे दिए गए चित्र के आधार पर गुणन (गुणा) का प्रश्न तैयार किया गया प्रश्न -



एक कतार में 6 फूल, तो ऐसी 4 कतारों में कुल कितने फूल ?

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ \times \boxed{\phantom{0}} \\ \hline \boxed{\phantom{0}} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{एक कतार के फूल} \\ \text{कुल कतारों} \\ \text{कुल फूल} \end{array}$$



एक बॉक्स में  गेंद, तो  बॉक्स में कुल कितने गेंद ?



☞ शिक्षकों के लिए : एक अंकवाली दो संख्याओं का उपयोग करके, गुणन के प्रश्न तैयार करवाएँ और हल करवाएँ ।

### गुणन (गुणा) के लिए पहाड़े का उपयोग

- ❖ चिंटू ने अपने जन्मदिवस के लिए ५ रुपये प्रति कलम की दर से ६ कलमें खरीदीं। उसे दुकानदार को कितने रुपये देने पड़ेंगे ?

→ कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए ५ का पहाड़ा,  
पाँच छक तक बोलना पड़ेगा।  
पाँच छह तीस अर्थात्  $5 \times 6 = 30$   
कुल ३० रुपये देने पड़ेंगे।

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 5 \\ \hline 30 \end{array}$$

कुल कलम  
एक कलम का मूल्य  
कुल रुपये

- ❖ एक कतार में ८ पौधे, ऐसी ५ कतारों में कितने पौधे ?

→ कतारें ५, प्रत्येक कतार में ८ पौधे।  
की जानेवाली क्रिया : गुणन। ८ के पहाड़े का उपयोग करेंगे।  
आठ पचे **चालीस**

$$\text{कुल पौधे} = 80$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 8 \\ \hline 40 \end{array}$$

कुल कतारें  
प्रत्येक कतार में पौधे  
कुल पौधे

- ❖ एक डिब्बे में ९ लड्डू। ऐसे ७ डिब्बों में कितने लड्डू ?

की जानेवाली क्रिया : गुणन (गुणा)  
९ का पहाड़ा बोलेंगे।  
नौ सत्ते **६३**

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 9 \\ \hline 63 \end{array}$$

कुल डिब्बे  
एक डिब्बे में लड्डू  
कुल लड्डू

- ❖ एक सप्ताह में ७ दिन, तो ४ सप्ताहों में कितने दिन ?

→ ७ का पहाड़ा बोलेंगे।  
सात चौक **२ॸ**

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 7 \\ \hline 28 \end{array}$$

कुल सप्ताह  
एक सप्ताह के दिन  
कुल दिन

- ❖ एक कतार में ८ टाइलें

तो ३ कतारों में कितनी टाइलें ?

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline \square \end{array}$$

एक कतार की टाइलें  
कतारें  
कुल टाइलें

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline \square \end{array}$$

कुल कतारें  
एक कतार में टाइलें  
कुल टाइलें

- ❖ एक अमरुद का मूल्य ६ रुपये है।


टोनी, सोनी, नंदू तथा सलमा इन चारों में प्रत्येक को एक अमरुद देने पर कितने रुपये लगेंगे ?

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 4 \\ \hline \square \end{array}$$

एक अमरुद का मूल्य  
कुल बच्चे  
कुल रुपये



गुणन (गुणा) क्रिया के गुणधर्म :



$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline \boxed{\quad} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline \boxed{\quad} \end{array}$$


◆ नीचे दिए गए गुणन (गुणा) पूर्ण करो और उसपर विचार करो ।

$6 \times 5 =$ <input type="text"/>	$5 \times 3 =$ <input type="text"/>	$7 \times 6 =$ <input type="text"/>	$9 \times 2 =$ <input type="text"/>
$5 \times 6 =$ <input type="text"/>	$3 \times 5 =$ <input type="text"/>	$6 \times 7 =$ <input type="text"/>	$2 \times 9 =$ <input type="text"/>

संख्याओं का क्रम बदलने पर भी गुणनफल वही आता है ।

जैसे :  $6 \times 5 = 5 \times 6$ ;  $5 \times 3 = 3 \times 5$ ;  $7 \times 6 = 6 \times 7$ ;  $9 \times 2 = 2 \times 9$

◆ शून्य के गुणन (गुणा) का गुणधर्म



$2 + 2 + 2 + 2$  का अर्थ है  $2 \times 4 = 8$   
 $1 + 1 + 1 + 1$  का अर्थ है  $1 \times 4 = 4$   
 $0 + 0 + 0 + 0$  का अर्थ है  $0 \times 4 = 0$

किसी भी संख्या से 'शून्य' में गुण करने पर अथवा 'शून्य' से किसी भी संख्या में गुण करने पर, गुणनफल 'शून्य' ही आता है ।  $0 \times 4 = 4 \times 0 = 0$

◆ नीचे दिए गए गुणन (गुणा) पूर्ण करो :

$2 \times 4 =$ <input type="text"/> $= 4 \times 2$	$7 \times 0 =$ <input type="text"/> $= 0 \times 7$	$9 \times 5 =$ <input type="text"/> $= 5 \times 9$
$7 \times 3 =$ <input type="text"/> $= 3 \times 7$	$0 \times 5 =$ <input type="text"/> $= 0 \times 0$	$6 \times 3 =$ <input type="text"/> $= 3 \times 6$

■ गुण्य, गुणक, गुणनफल

6 गुण्य × 5 गुणक	5 गुण्य × 6 गुणक
30 गुणनफल	30 गुणनफल

शिक्षिका : गुणन  $6 \times 5$  में, हम पहली संख्या 6 में गुणा करते हैं, वह गुण्य और दूसरी संख्या 5 से हम गुणन (गुणा) करते हैं, वह गुणक और प्राप्त उत्तर 30 अर्थात् गुणनफल है । इसी

प्रकार गुणन (गुणा)  $5 \times 6$  में, 5 गुण्य, 6 गुणक और 30 गुणनफल है ।